



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४१

१७ आश्विन १९४१ (श०)
पटना, बुधवार, —————
९ अक्टूबर २०१९ (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ	
		पृष्ठ	
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	---	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	2-2	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	3-12
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	13-17

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

शुद्धि पत्र

26 सितम्बर 2019

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2019-8332—विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5317 दिनांक-25.06.2019 द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सेवा प्राप्त कुल 07 चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों में डॉ० देवानन्द प्रसाद का गृह जिला, टंकण भूलवष पटना के स्थान पर रोहतास अंकित हो गया है।

2. अतः डॉ० देवानन्द प्रसाद का गृह जिला रोहतास के स्थान पर पटना पढ़ा जाये।
3. अधिसूचना की शेष कड़िकाएँ यथावत् रहेंगे।

आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

स्वास्थ्य विभाग (आयुष)
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना

निविदा सूचना 23 सितम्बर 2019

सं० 198—एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में गुणवत्तायुक्त औषध द्रव्यों, मशीन उपकरण, स्टेशनरी एवं विविध सामग्रियों के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 वें (पन्द्रहवें) दिन के अन्दर अपराहन 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आमंत्रित की जाती है। यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद, तिथि निर्धारित कर क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

आमंत्रित निविदा दो प्रकार की होगी :-

1. तकनीकी निविदा
2. वित्तीय निविदा

तकनीकी निविदा:—निविदा से सम्बंधित सभी प्रकार की कागजात मुहरबंद होंगे। इस निविदा में अन्य कागजातों के अलावा आपूर्ति हेतु निविदा दिये जाने वाले औषध द्रव्यों एवं सामग्रियों की सूची दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त औषध द्रव्यों की निविदा हेतु थैलियों में बंद असली नमूना (जिस पर निविदा में अंकित औषधियों का क्रमांक तथा निविदादाता का हस्ताक्षर नाम एवं तिथि के साथ अंकित रहना चाहिए) अलग से डाक द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना आवश्यक होगा।

तकनीकी निविदा में उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक अभिलेखों की सूची :-

1. प्रतिष्ठान के बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा निबंधित (जी.एस.टी.) रहने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति। साथ ही विगत वर्षों में जी.एस.टी. भुगतान किये जाने का चालान की छायाप्रति।
2. प्रतिष्ठान के दुकान (Shop) स्थापित रहने के दुकान प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. कम से कम विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न आवश्यक।
4. वित्त विभाग द्वारा उपबंधित राशि 50,00,000/- का 10 प्रतिशत 5,00,000/- अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य।
5. ड्रग लाईसेन्स की छाया प्रति अनिवार्य। कम से कम विगत तीन वर्ष पूर्व के लाईसेन्सधारी प्रतिष्ठान/ एजेन्सी/ फर्म ही मान्य होंगे।
6. कम्पनी/ फर्म/ एजेन्सी का औसतन वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रहने सम्बंधी ऑडिटेड रिपोर्ट की छाया प्रति। विगत तीन वर्षों का ऑडिटेड रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
7. आपूर्ति अनुभव (Supply Experience) ग्राहकों के नाम एवं संख्या (Name and numbers of Clients) तथा वर्षों की संख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य।
8. निविदा की सभी शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र अंकित कर उपलब्ध कराना अनिवार्य।

तकनीकी निविदा मूल्यांकन (Technical Bid Evaluation) :-

Sr. No.	Criteria	Max. Point	Point System	Document Require
1	Profile of bidder	26		
1	No. of Year of Shop Established	10	3 years – 2 Points 3-5 years – 4 Points 5-7 years – 6 Points >7 years – 10 Points	Certificates/ License/ Documents of Establishment
2	No. of Year of Drug License	10	3 years – 2 Points 3-5 years – 4 Points 5-7 years – 6 Points	Copy of Drug License

			>7 years – 10 Points	
3	Average Annual Turnover of Company/ Agencies/ Firm for Last 03 years. (as per Audited P & L)	6	01 Crore – 2 Points >1 years – 4 Points	Audited report last 3 years
2	Past Experience	30		
1	Supply experience No. of supply order in Central Govt./ State Govt./ Agencies of Central Govt./ State Govt. with Name & No. of clients	10	1 Order – 1 points 2 Order – 2 points 3 Order – 3 points 4 Order – 4 points 5 Order – 5 points 6 Order – 6 points 7 Order – 7 points 8 Order – 8 points 9 Order – 9 points > 10 Order – 10 points	Copy of Supply order
2	No of years of supply Experience No. of years of supply in Central Govt./ State Govt./ Agencies of Central Govt./ State Govt. with Name & No. of clients	10	1 Year – 1 points 2 Year – 2 points 3 Year – 3 points 4 Year – 4 points 5 Year – 5 points 6 Year – 6 points 7 Year – 7 points 8 Year – 8 points 9 Year – 9 points > 10 Year – 10 points	Copy of Supply order
3	No. of ayush drug/ Raw materials of ayush drug supply order executed in state of Bihar	10	1 Order – 1 points 2 Order – 4 points 3 Order – 6 points 4 Order – 8 points >4 Order – 10 points	Copy of Supply order

उपर्युक्त के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर ही तकनीकी निविदा स्वीकृत की जायेगी।

वित्तीय निविदा:—औषध द्रव्यों/ सामग्रियों का दर/मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर मुहरबंद रहना आवश्यक। निविदा में अंकित किया गया दर स्थानीय बाजार की दर से बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट—प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना स्तर पर गठित समिति द्वारा औषध द्रव्यों/सामग्रियों का स्थानीय बाजार की दर प्राप्त की जायेगी एवं उसे क्रय समिति के समक्ष खोल कर देखा जायेगा तथा निविदा में अंकित दर को उससे मिलान किया जायेगा।

निविदा की निम्नलिखित सामान्य शर्तें होंगी :—

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ, जिन पर साफ-साफ अक्षरों में विविध तकनीकी निविदा एवं विविध वित्तीय निविदा क्रमशः अंकित कर अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर उन्हें एक बड़े लिफाफे में डाल कर एवं मुहरबंद कर लिफाफे पर निविदादाता का अपना नाम पूरा पता और दूरभाष संख्या अंकित कर केवल निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही उपलब्ध कराना अनिवार्य है। डाक सेवा में विलम्ब के कारण निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिए औषध निर्माणशाला जिम्मेवार नहीं होगा।

2. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोला जाना अनिवार्य होगा।

3. निविदा कम्प्यूटराईज्ड होना अनिवार्य है। हस्तलिखित निविदा स्वीकारनीय नहीं है। निविदा में किसी भी तरह की कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं है।

4. क्रय की जाने वाली काष्ठ औषधियों/ सामग्रियों की सूची अपने प्रतिष्ठान के पैड पर लिखित रूप में कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिस प्रतिष्ठान के नाम पर सूची निर्गत नहीं की गयी होगी उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदा में अंकित औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार हिन्दी में अंकित करना अनिवार्य है तथा दर पूर्णांक में अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही सभी औषध द्रव्यों का दर प्रति किलोग्राम/ प्रति लिटर पर अंकित करना आवश्यक है। जिन औषध द्रव्यों/सामानों का कम्पनी का नाम निविदा में अंकित होगा उसी का दर अंकित करना अनिवार्य है।

6. स्वीकृत निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा औषध निर्माणशाला तक औषध द्रव्यों एवं सामग्रियों की आपूर्ति अपने खर्च पर करना अनिवार्य होगा।

7. स्वीकृत निविदादाता को पूरे निविदित वर्ष तक आदेशानुसार औषध द्रव्यों एवं सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अन्दर करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाई किया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रावधानानुसार टैक्स की कटौति आपूर्तिकर्ता को स्वयं खजाने में जमा कर उसकी चालान की प्रति कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा टैक्स की कटौति सम्बंधी समय-समय पर निर्गत अन्य सरकारी प्रावधान निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
9. गुणवत्तायुक्त औषध द्रव्य स्वीकृत औषध द्रव्य नमूना से मिलान कर संतोषप्रद पाये जाने पर ही सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार की जायेगी अन्यथा आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर वापस ले जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या रद्द करने का अधिकार प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी वाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय के अधीन होगा।

आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला में क्रय हेतु औषध द्रव्यों तथा सामग्रियों की सूची

क्र.सं.	कच्ची औषधि की सूची	दर	क्र.सं.	कच्ची औषधि की सूची	दर
1	अंजन	प्रति किग्रा.	23	इन्द्र जौ तल्ल	प्रति किग्रा.
2	आकरकरा	प्रति किग्रा.	24	इन्द्रयव / इन्द्र जौ सीरीन	प्रति किग्रा.
3	अन्नक भस्म	प्रति किग्रा.	25	इलायची बडी	प्रति किग्रा.
4	अर्क गुलाब ब्रांडेड	प्रति लीटर.	26	इलायची छोटी	प्रति किग्रा.
5	अम्बा / आमा हल्दी	प्रति किग्रा.	27	इलायची तैल ब्रांडेड	प्रति किग्रा.
6	अम्लवेतस	प्रति किग्रा.	28	ईसबगोल भूसी	प्रति किग्रा.
7	अमलतास गुद्दा	प्रति किग्रा.	29	उसतोखूदूश	प्रति किग्रा.
8	अरिमेद की लकडी	प्रति किग्रा.	30	उन्नाव बिलायती	प्रति किग्रा.
9	आब्रेशम खान	प्रति किग्रा.	31	उश्वा मगरवी	प्रति किग्रा.
10	आजवाईन	प्रति किग्रा.	32	एरण्ड तैल ब्रांडेड	प्रति किग्रा.
11	आजवाईन सत्व	प्रति किग्रा.	33	ऐंटीज्योटी	प्रति किग्रा.
12	आँवला सूखा बीज रहित	प्रति किग्रा.	34	कपैली / सूपारी गोटा	प्रति किग्रा.
13	असारुण	प्रति किग्रा.	35	कंकोल / शीतलचीनी / कबाबचीनी	प्रति किग्रा.
14	अश्वगंध	प्रति किग्रा.	36	कंटकारी / रेंगनी हरा	प्रति किग्रा.
15	अफतिमून बिलायती	प्रति किग्रा.	37	कंटकारी / रेंगनी सुखा	प्रति किग्रा.
16	अतीस / अतीस सीरीन	प्रति किग्रा.	38	कथपोखरा	प्रति किग्रा.
17	अजमोद / तुल्ल करफस	प्रति किग्रा.	39	कबीला / कमीला	प्रति किग्रा.
18	अनार दाना	प्रति किग्रा.	40	कर्कटश्रंगी	प्रति किग्रा.
19	अकीक	प्रति किग्रा.	41	कमल फूल	प्रति किग्रा.
20	अरणी / अग्निमंथ छाल	प्रति किग्रा.	42	कमल गट्टा	प्रति किग्रा.
21	अगर बुरादा	प्रति किग्रा.	43	भीमसेनी कपूर डेला	प्रति किग्रा.
22	इसपंद	प्रति किग्रा.	44	कचूरकचरी	प्रति किग्रा.

45	करंज बीज / तुख्म करंजवा	प्रति किग्रा.	78	गुले सुर्ख (गुलाब फुल)	प्रति किग्रा.
46	कासीस (हरा कशीश)	प्रति किग्रा.	79	गुले जुफा	प्रति किग्रा.
47	काला नमक / नमक स्याह	प्रति किग्रा.	80	गुले गाफीस	प्रति किग्रा.
48	कालाजीरी	प्रति किग्रा.	81	गुले गॉवजुवा	प्रति किग्रा.
49	कुष्ट / कुठ / कुष्ठ सीरी	प्रति लीटर.	82	गेरु (गिले अरमनी)	प्रति किग्रा.
50	कुंदुर	प्रति किग्रा.	83	गजपिप्पली / गजपीपर	प्रति किग्रा.
51	कुमबादाना(पुम्बादाना)	प्रति किग्रा.	84	गन्धक अमलासार	प्रति किग्रा.
52	कुचीला	प्रति किग्रा.	85	घृतकुमारी हरा	प्रति किग्रा.
53	कुटकी	प्रति किग्रा.	86	चित्रकमूल	प्रति किग्रा.
54	कुलंजन	प्रति लीटर.	87	चिरायता तल्ल	प्रति किग्रा.
55	कुल्थी	प्रति किग्रा.	88	चकबर बीज	प्रति किग्रा.
56	कतीरा	प्रति किग्रा.	89	चौबगज	प्रति किग्रा.
57	कटफल / कायफल	प्रति किग्रा.	90	चोपचीनी / चौबचीनी	प्रति किग्रा.
58	कलमी सोरा	प्रति किग्रा.	91	चालमुगरा	प्रति किग्रा.
59	किशमिश हरा	प्रति किग्रा.	92	चव्य / चाभ	प्रति किग्रा.
60	खस	प्रति किग्रा.	93	छडिला	प्रति किग्रा.
61	खुरमा (छोहारा)	प्रति किग्रा.	94	जयपाल / जमालघोटा	प्रति किग्रा.
62	खैर की लकडी	प्रति किग्रा.	95	जीरा काला (स्याह जीरा)	प्रति किग्रा.
63	खडिया / दुधिया खल्ली	प्रति किग्रा.	96	जीरा सफेद	प्रति किग्रा.
64	गिलोय लता सुखा	प्रति किग्रा.	97	जायफल	प्रति किग्रा.
65	गिलोय सत्व	प्रति किग्रा.	98	जावित्री	प्रति किग्रा.
66	गम्भारी छाल	प्रति किग्रा.	99	जदवार सीरी	प्रति किग्रा.
67	गोखरु बीज	प्रति किग्रा.	100	जटामांसी	प्रति किग्रा.
68	गोक्षरु पंचांग	प्रति किग्रा.	101	जरावंद	प्रति किग्रा.
69	गोदन्ती	प्रति किग्रा.	102	जरम्बाद	प्रति किग्रा.
70	गड़ी गोला	प्रति किग्रा.	103	जुन्तियाना	प्रति किग्रा.
71	गुड़ मगही	प्रति किग्रा.	104	जाफरान(केशर) ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.
72	गुडमार / गुलमार बुटी	प्रति किग्रा.	105	जस्मीन ऐसेन्स (400 मि.लि.)	प्रति किग्रा.
73	गुग्गुल(मुक्कील)	प्रति किग्रा.	106	तिखुर	प्रति किग्रा.
74	गुलकन्द आफताबी	प्रति किग्रा.	107	तिल तेल (ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.
75	गुले बानपसा	प्रति किग्रा.	108	ताम्र भस्म	प्रति किग्रा.
76	गुले मुंडी	प्रति किग्रा.	109	तालमखाना	प्रति किग्रा.
77	गुले निलोफर	प्रति किग्रा.	110	तालीसपत्र	प्रति किग्रा.

111	तुख्म धतूरा	प्रति किग्रा.	144	धनियॉ / किशनीजी	प्रति किग्रा.
112	तुख्म ख्यारैन	प्रति किग्रा.	145	धातकी पुष्प/गुले धावा/धाय का फूल	प्रति किग्रा.
113	तुख्म खरबूजा	प्रति किग्रा.	146	धतूर पत्र /वर्ग धतूरा हरा/	प्रति किग्रा.
114	तुख्म खशखास(पोस्तादाना)	प्रति किग्रा.	147	घुना /राल	प्रति किग्रा.
115	तुख्म खुब्बाजी	प्रति किग्रा.	148	नख / व्याघ्रि नखी	प्रति किग्रा.
116	तुख्म खुरफा स्याह	प्रति किग्रा.	149	नागकेशर	प्रति किग्रा.
117	तुख्म खत्मी	प्रति किग्रा.	150	नागरमोथा	प्रति किग्रा.
118	तुख्म बरियार	प्रति किग्रा.	151	निशोथ / त्रिवृत	प्रति किग्रा.
119	तुख्म बाबूना	प्रति किग्रा.	152	नीलक	प्रति किग्रा.
120	तुख्म कासनी	प्रति किग्रा.	153	नीम बीज/तुख्म नीम	प्रति किग्रा.
121	तुख्म कोरैया	प्रति किग्रा.	154	नीमपत्र /नीमपत्ता/(वर्ग नीम)	प्रति किग्रा.
122	तुख्म कसूस	प्रति किग्रा.	155	नीमपुष्प / नीम फूल	प्रति किग्रा.
123	तुख्म कवॉच/ केवॉच बीज	प्रति किग्रा.	156	नीमछाल	प्रति किग्रा.
124	तुख्म कतॉ (तीसी)	प्रति ग्राम	157	नीममूल / नीम जड	प्रति लीटर.
125	तुख्म हल्वा(मेथी)	प्रति बोतल	158	निर्मली	प्रति किग्रा.
126	तुख्म शाहतरा	प्रति किग्रा.	159	निर्गुण्डी / सम्भालू पत्र	प्रति किग्रा.
127	तुख्म सम्भालू	प्रति लीटर.	160	पलाश बीज	प्रति किग्रा.
128	तुख्म सोया	प्रति किग्रा.	161	पदम्क/ पद्म काष्ठ	प्रति किग्रा.
129	तुख्म तमर हिन्द (इमली बीज)	प्रति किग्रा.	162	पत्रांग	प्रति किग्रा.
130	तुख्म जामुन/ जामुन बीज	प्रति किग्रा.	163	पिप्पलीमूल / पिपरा मूल	प्रति किग्रा.
131	तुख्म गाजर	प्रति किग्रा.	164	पिप्पली / पीपर बडी	प्रति किग्रा.
132	तुरंजबीज खुरासानी	प्रति किग्रा.	165	पिपरमिंट सत्व	प्रति किग्रा.
133	तुदरी सुर्ख	प्रति किग्रा.	166	प्रियंगु	प्रति किग्रा.
134	तुदरी सफेद	प्रति किग्रा.	167	प्रवाल / मूंगाशाखा	प्रति किग्रा.
135	तुत्थ/ तुतीया	प्रति किग्रा.	168	पुष्करमूल	प्रति किग्रा.
136	तेजपत्र / तेजपात	प्रति किग्रा.	169	प्रपौण्डिक/ नीला कमल	प्रति किग्रा.
137	तगर बुरादा	प्रति किग्रा.	170	पृश्नीपर्णी	प्रति किग्रा.
138	दारुहल्दी	प्रति किग्रा.	171	पाटला छाल	प्रति किग्रा.
139	दारुनज अकरवी	प्रति किग्रा.	172	पुनर्नवादि मण्डूर	प्रति किग्रा.
140	दंतिमूल	प्रति किग्रा.	173	फिटकरी/स्फटिक	प्रति किग्रा.
141	दालचीनी	प्रति किग्रा.	174	बोजीदाना	प्रति किग्रा.
142	दालचीनी तैल ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.	175	बबूल छाल	प्रति किग्रा.
143	देवदारु/ देवदार	प्रति किग्रा.	176	बिल्वमूल छाल / बेल छाल	प्रति किग्रा.

177	बहमन सफेद	प्रति किग्रा.	210	रतन जोत	प्रति किग्रा.
178	बाकुची / बाबची	प्रति किग्रा.	211	रसकपूर	प्रति किग्रा.
179	बुरादा सन्दल सुर्ख(चन्दन लाल पाउडर)	प्रति किग्रा.	212	रेवद चीनी	प्रति किग्रा.
180	बुरादा सन्दल सफेद(चन्दन सफेद पाउडर)	प्रति किग्रा.	213	लकड़ी जलावन	प्रति किग्रा.
181	बिल्व गुदा / बिल्लो सोंठ	प्रति किग्रा.	214	लाजवंती	प्रति किग्रा.
182	भृंगराज	प्रति किग्रा.	215	लाही	प्रति किग्रा.
183	मंजीष्ठ / मंजीठ	प्रति किग्रा.	216	लवंग / करंफल	प्रति किग्रा.
184	मंगरैला	प्रति किग्रा.	217	लवंग तैल ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.
185	मकोह खुस्क / मकोय	प्रति किग्रा.	218	लज्जालु मूल	प्रति लीटर.
186	मरीच / काली मिर्च	प्रति किग्रा.	219	लोघ्न छाल	प्रति लीटर.
187	मोम जर्द	प्रति किग्रा.	220	लौह भस्म	प्रति लीटर.
188	मोचरस	प्रति किग्रा.	221	लकुच / बडहल छाल	प्रति किग्रा.
189	मस्तगी रुमी (ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.	222	लहशून	प्रति किग्रा.
190	मदनफल पीप्पली	प्रति किग्रा.	223	वच	प्रति किग्रा.
191	मुसब्बर	प्रति किग्रा.	224	विदारीकन्द	प्रति किग्रा.
192	मुस्कतरामसीह	प्रति किग्रा.	225	विभीतकी / बहेडा बीज रहित	प्रति किग्रा.
193	मुसली स्याह / काली मुसली	प्रति किग्रा.	226	विडंग / वायविडंग	प्रति किग्रा.
194	मुसला सम्भल	प्रति किग्रा.	227	विधारा / तुबुर्द	प्रति किग्रा.
195	मुर्दा शंख	प्रति किग्रा.	228	वरुण छाल	प्रति किग्रा.
196	मुनक्का	प्रति किग्रा.	229	वृहती / बडी कटेरी	प्रति लीटर.
197	मुलतानी मिट्टी	प्रति किग्रा.	230	वंशलोचन(तबासीर)	प्रति किग्रा.
198	मिश्री ढेला	प्रति किग्रा.	231	वराहीकन्द	प्रति किग्रा.
199	मिर्च सफेद	प्रति किग्रा.	232	वादावर्द	प्रति किग्रा.
200	यवक्षार / जवाखार	प्रति किग्रा.	233	वेख इजखर	प्रति किग्रा.
201	यवासा	प्रति किग्रा.	234	वेख करफस	प्रति किग्रा.
202	यष्टिमधु / असलसूस	प्रति किग्रा.	235	वेख कासनी	प्रति किग्रा.
203	रास्ना	प्रति किग्रा.	236	वेख वादयान	प्रति किग्रा.
204	रसांजन / रसौत	प्रति किग्रा.	237	वेख अनजवायर	प्रति किग्रा.
205	रसना काली	प्रति किग्रा.	238	वर्ग बबूल	प्रति किग्रा.
206	रोगन तारपीन (ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.	239	वर्ग बादरंज बोया	प्रति किग्रा.
207	रोगन सरसों(ब्राण्डेड)/सरसो तेल	प्रति किग्रा.	240	वर्ग कटैला	प्रति किग्रा.
208	रोगन बादाम सीरी(ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.	241	वर्ग पोदीना	प्रति किग्रा.
209	रसवत	प्रति किग्रा.	242	वर्ग शाहतरा	प्रति किग्रा.

243	वर्ग सुददाव	प्रति किग्रा.	273	सफेद मुसली	प्रति किग्रा.
244	वर्ग अकवन हरा / अर्क पत्र	प्रति किग्रा.	274	सत्व पोदीना	प्रति किग्रा.
245	वर्ग गौवजूबा / गोजिहवा	प्रति किग्रा.	275	सत्व लेमन / निम्बू सत्व	प्रति किग्रा.
246	वर्ग झाउ	प्रति किग्रा.	276	सेन्धा नमक(नमक लाहोरी)	प्रति किग्रा.
247	विषफायज	प्रति किग्रा.	277	सज्जीक्षार / सज्जीखार	प्रति किग्रा.
248	शंख टुकड़ा	प्रति किग्रा.	278	सनाय पत्ती(वर्ग सनाय)	प्रति किग्रा.
249	शीप टुकड़ा	प्रति किग्रा.	279	स्नुही / थुहर	प्रति किग्रा.
250	शुद्ध घी/रोगन जर्द(सुधा घी)	प्रति किग्रा.	280	सिंधारा	प्रति किग्रा.
251	शुण्ठी / सोंठ सफेद	प्रति किग्रा.	281	सिरका जामून(450 मि.लि.)ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.
252	शुद्ध शिलाजीत (ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.	282	सिरका गन्ना(450 मि.लि.)ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.
253	शहद/मधु ब्राण्डेड	प्रति किग्रा.	283	हींग तलाई (ब्राण्डेड)	प्रति किग्रा.
254	श्योनक छाल	प्रति किग्रा.	284	हर्रे छोटी	प्रति किग्रा.
255	शतावर	प्रति किग्रा.	285	हउबेर	प्रति किग्रा.
256	संगजराहत	प्रति किग्रा.	286	हलयुन देशी	प्रति बोतल.
257	सकाई	प्रति किग्रा.	287	हल्दी	प्रति बोतल.
258	सकाकुल मिश्री	प्रति किग्रा.	288	हरितकी / बडी हर्रे बीज रहित	प्रति किग्रा.
259	समुद्र सोख	प्रति किग्रा.	289	गो दूध / गाय का दूध	प्रति किग्रा.
260	समुद्र लवण/नमक पांगा	प्रति किग्रा.	290	गो मूत्र / गाय का मूत्र	प्रति किग्रा.
261	समग्र ढाक	प्रति किग्रा.	291	नींबू हरा	प्रति किग्रा.
262	समग्र अरबी	प्रति लीटर.	292	स्टार्च (Starch I.P.)	प्रति किग्रा.
263	सहजन / शिग्रु छाल	प्रति किग्रा.	293	डी.सी.पी. (D.C.P./ Di Calcium Phosphate I.P.)	प्रति किग्रा.
264	सपिसतों	प्रति किग्रा.	294	बबूल गोंद चूर्ण . (Gum Acacia I.P.)	प्रति लीटर.
265	सरसो पीला	प्रति किग्रा.	295	सफेद मुसली	प्रति लीटर.
266	साम्भर नमक	प्रति किग्रा.	296	सत्व पोदीना	प्रति अदद
267	सावर्चल / सौचर लवण	प्रति किग्रा.	297	सत्व लेमन / निम्बू सत्व	प्रति किग्रा.
268	सौंफ(वादयान)	प्रति किग्रा.	298	सेन्धा नमक(नमक लाहोरी)	प्रति किग्रा.
269	सोहागा सोनारी	प्रति अदद	299	सज्जीक्षार / सज्जीखार	प्रति किग्रा.
270	सालपर्णी	प्रति किग्रा.	300	मण्डूर भस्म	प्रति किग्रा.
271	स्वर्णमाक्षिक भस्म	प्रति किग्रा.	301	वटारोह / बरगद का जड. हरा	प्रति किग्रा.
272	सुरंजान सीरी	प्रति किग्रा.	302		

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला हेतु सामाग्रियों की सूची

क्र.सं.	सामाग्रियों की सूची	विशिष्टताएँ	दर
1	स्टेनलेश स्टील का छोलनी बड़ा	आगे का भाग (पंजा)–लगभग 90mm x 90mm एवं लम्बाई–750 mm व्यास– 20 , हैंडल– 300mm, व्यास- 20 mm	प्रति अदद
2	चलनी– 60 न.		प्रति अदद
3	चलनी– 80 न.		प्रति अदद
4	चलनी– 100 न.		प्रति अदद
5	चलनी– 24 न.		प्रति अदद
6	कपड़ा मारकीन		प्रति मीटर
7	ब्रश 25 mm		प्रति अदद
8	ब्रश 50 mm		प्रति अदद
9	प्लास्टिक बैग	500 ग्राम चूर्ण पैक करने योग्य, पारदर्शी, माटाई 50 माइक्रोन से ज्यादा	प्रति किग्रा.
10	प्लास्टिक सीलिंग मशीन		प्रति अदद
11	टीप / कीप छोटा	प्लास्टिक	प्रति अदद
12	टीप / कीप बड़ा	प्लास्टिक	प्रति अदद
13	गडासी		प्रति अदद
14	सोडा / डिटरजेंट	Wheel , packing size- 1 kg	प्रति पैकेट
15	लोहे का स्क्राबर / स्टील ब्रूल		प्रति अदद
16	माचिस		प्रति अदद
17	ए4 स्टीकर पेपर	A4 Sticker paper	प्रति पैकेट
18	शीशी 50 मिली.	Transprent , 50 ml capacity, with stopper & aotu louck Caps	प्रति सैकड़ा
19	शीशी 200 मिली.	Transprent , 200 ml capacity, with stopper & aotu louck Caps	प्रति सैकड़ा
20	शीशी 10 मिली.	Transprent , 10 ml capacity, with dropper & Auto louck Caps	प्रति सैकड़ा
21	प्लास्टिक डिब्बा	Container having wide mouth , capacity 100 gm Powder, with Cap	प्रति सैकड़ा
22	प्लास्टिक डिब्बा	Container having wide mouth , capacity 50 gm Powder, with Cap	प्रति सैकड़ा
23	रजिस्टर– क	दिये गए प्रारूप के अनुसार तीन प्रतियों (With Triplicate) में 50 पृष्ठ का	प्रति अदद
24	रजिस्टर– च	दिये गए प्रारूप के अनुसार दो प्रतियों (With Duplicate) में 100 पृष्ठ का	प्रति अदद
25	रजिस्टर– ख	दिये गए प्रारूप के अनुसार 300 पृष्ठ का	प्रति अदद
26	रजिस्टर– ग	दिये गए प्रारूप के अनुसार 150 पृष्ठ का	प्रति अदद
27	रजिस्टर– घ	दिये गए प्रारूप के अनुसार 150 पृष्ठ का	प्रति अदद

28	प्लास्टिक माप 10 ml	Measuring cylender 10 ml	प्रति अदद
29	प्लास्टिक माप 50 ml	Measuring cylender 50 ml	प्रति अदद
30	प्लास्टिक माप 100 ml	Measuring cylender 100 ml	प्रति अदद
31	प्लास्टिक माप 200 ml	Measuring cylender 200 ml	प्रति अदद
32	गमला सिमेंट का मध्यम साइज		प्रति अदद
33	फोटो कॉपियर	A4	प्रति पैकेट
34	तौलिया फरवाला बडा		प्रति अदद
35	तौलिया बिना फरवाला बडा		प्रति अदद
36	तौलिया छोटा		प्रति अदद
37	फिनाइल ब्रण्डेड 450 ml	ब्रण्डेड, 450 ml	प्रति बोतल
38	गोन्द	Camel, 700 ml	प्रति अदद
39	कार्टेज	(कैनन प्रिन्टर का न. 925)	प्रति अदद
40	टोनर	(Sharp AR- 5316) फोटो स्टेट मशीन का	प्रति अदद
41	स्याही (Ink Set)	HP Deskjet GT 5811 प्रिन्टर का	प्रति अदद
42	फुलझाडू		प्रति अदद
43	डस्टर		प्रति अदद
44	फिनाइल गोली		प्रति अदद
45	वाथरुम ब्रश		प्रति अदद
46	LED बल्ब	5 watt	प्रति अदद
47	LED बल्ब	11 watt	प्रति अदद
48	LED बल्ब	20 watt	प्रति अदद
49	बॉल/डॉट पेन (लाल, काला, नीला, हरा)	Link	प्रति अदद
50	रिफिल (लाल, काला, नीला, हरा)	Link	प्रति अदद
51	एसिड		प्रति अदद
52	पेपर कटर		प्रति अदद
53	फैसी रजिस्टर (2 जिस्ता)		प्रति अदद
54	रजिस्टर (2 जिस्ता)		प्रति अदद
55	रजिस्टर (4 जिस्ता)		प्रति अदद
56	अवकाश पंजी (1 जिस्ता)		प्रति अदद
57	लाइफ वॉय साबून बडा		प्रति अदद
58	डिटॉल हैंडवॉस 150 ml		प्रति अदद
59	सी.डी. मार्कर		प्रति अदद

60	परमानेन्ट मार्कर	काला / नीला	प्रति अदद
61	हाई लाइटर		प्रति अदद
62	व्हाइटनर (corrector pen) बडा		प्रति अदद
63	स्केल स्टील (12 इंच)		प्रति अदद
64	अवकाश पंजी 1		प्रति अदद
65	रूम फ्रेशनर (Room freshner)		प्रति अदद

आदेश से,
प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला।

सूचना

No. 1034---I, Rishu S/o Vijay Kumar, Residence Vill+Post-Pillich, P.S.-Parwalpur, Distt.-Nalanda do hereby declare that I have changed my name from Rishu to Rishu Kumar Singh, Affidavit No. 6069, Date 09.07.2019.

Rishu.

No. 1035---I, Ashit S/o Vijay Kumar, Residence Vill+Post-Pillich, P.S.-Parwalpur, Distt.-Nalanda do hereby declare that I have changed my name from Ashit to Ashit Kumar Singh Affidavit No.- 6070, Date 09.07.2019.

Ashit.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 27/आरोप-01-26/2019 सा0प्र0—9071
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

8 जुलाई 2019

श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-789/11 के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर) के पद पर पदस्थापन काल में इंदिरा आवास योजना एवं इंदिरा आवास उन्नयन योजना की राशि गबन करने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11016 दिनांक 02.07.2013 द्वारा श्री रंजन को निलंबित किया गया।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12394 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी। आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री रंजन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4006 दिनांक 23.03.2018 द्वारा श्री रंजन को निलंबन मुक्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13295 दिनांक 05.10.2018 द्वारा दंड संसूचित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक 13910 दिनांक 22.10.2018 द्वारा निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में श्री रंजन से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा निलंबन अवधि को अन्य सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि के रूप में परिगणित करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 27/आरोप-01-22/2019-सा0प्र0-9757

संकल्प

22 जुलाई 2019

मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज को दिनांक 14.01.2017 के विरुद्ध सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना की उच्चस्तरीय जाँच के उपरान्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एस0डी0आर0एफ0 के नावों का सही ढंग से उपयोग नहीं करने तथा नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि आरोपों के लिए आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 4152 दिनांक 06.04.2017 एवं स्मार पत्रांक 5603 दिनांक 11.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। मो0 आलम के पत्र दिनांक 24.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

2. मो0 आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7847 दिनांक 29.06.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. अपर सदस्य, राजस्व पंख, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 474 दिनांक 03.10.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष पर

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त किये गये असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 16277 दिनांक 21.12.2017 द्वारा मो0 आलम को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में मो0 आलम के पत्र दिनांक 08.01.2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. मो0 आलम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि मो0 आलम द्वारा एस0डी0आर0एफ0 का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया और नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया गया। इनके द्वारा यदि नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध करा दिया होता तो नावों का परिचालन ससमय किया जाता। ईंधन की आपूर्ति के अभाव में नावों का सदुपयोग, पेट्रोलिंग तथा बचाव ऑपरेशन के लिए ससमय नहीं किया जा सका। उक्त लापरवाही के कारण नाव दुर्घटना हुई तथा व्यापक जान-माल की क्षति हुई।

इस प्रकार मो0 आलम को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव (दिनांक 14.01.2017) के दौरान हुई नाव दुर्घटना में कर्तव्यों के निर्वहन/विधि-व्यवस्था के संधारण में लापरवाही बरतने तथा सतकर्ता एवं दूरदर्शिता का अभाव का दोषी पाया गया, अतएव मो0 आलम के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उन्हें "तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 आलम के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2740 दिनांक 27.02.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 575 दिनांक 29.05.2018 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया। उक्त परामर्श में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया कि *आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अधिक होने के कारण अनुपातिक नहीं है।*

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त मो0 आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता एवं मो0 आलम की कर्तव्यहीनता के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से असहमति व्यक्त की गयी।

7. उक्त दंड के विरुद्ध श्री आलम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या-6616/2019 दायर किया गया माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता एक Reviewing Paper दंडादेश के विरुद्ध तीन सप्ताह के अन्दर दायर करेंगे और Reviewing Authority उस Reviewing Paper Memorial प्राप्त होने के दो माह के अन्दर माननीय न्यायालय द्वारा किये गये Memorial पर निर्णय लेगे।

8. उक्त आदेश के अनुपालन में श्री आलम द्वारा दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया। जिस पर सभी बिन्दुओं की चर्चा करते हुए कहा गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में यह प्रतिवेदित किया गया था कि मेरे विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

9. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, मो0 आलम से प्राप्त पुनर्विचार आवेदनों तथा उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा कोई ऐसा तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विचारणीय हो।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज के पुनर्विचार आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9428 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधिरोपित दंड यथा तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति को यथावत रखा जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 27 / आरोप-01-57 / 2019, सां0 प्र0-10841

संकल्प

6 अगस्त 2019

श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमंडल, दरभंगा के साथ अभद्रता के साथ बात करने, घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी देने एवं सरकारी पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) का जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) उपलब्ध कराया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1302/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 27 / परि०—06—08 / 2019—सा०प्र०—11503

संकल्प

21 अगस्त 2019

मो० शफीक (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1217/11, तत्कालीन भूमि उप समाहर्ता, किशनगंज सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के विरुद्ध मो० अकबर अली, पूर्व महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाईटेड, किशनगंज द्वारा परिवाद—पत्र समर्पित किया गया। उक्त परिवाद में निहित तथ्यों की जाँच हेतु दो सदस्यीय जाँच दल का गठन कर विषय—वस्तु की जाँच करायी गयी, जिसमें संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 113/जि०आ० दिनांक 04.02.2017 जो जिला पदाधिकारी, किशनगंज को संबोधित है, की प्रति विभाग को सभी अनुलग्नकों के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

मो० अकबर अली द्वारा समर्पित परिवाद के आलोक में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि :—

(i) मो० शफीक (बि०प्र०से०), अनुमंडल पदाधिकारी—सह—तत्कालीन भूमि उप समाहर्ता, किशनगंज द्वारा बी०एल०डी०आर० वाद संख्या 150/10—11 में अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद पुनरावलोकन करने हेतु सक्षम नहीं थे और न उक्त वाद का पुनरावलोकन करने हेतु किसी सक्षम प्राधिकार से उन्हें कोई आदेश प्राप्त हुआ था।

(ii) प्रश्नगत वाद में अनुमंडल पदाधिकारी—सह—तत्कालीन भूमि उप समाहर्ता द्वारा किया गया पुनरावलोकन विधि सम्मत नहीं है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा पुनरावलोकन वाद की कार्रवाई में पारित आदेश की तिथि 31.09.2015 है लेकिन आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, किशनगंज को देने हेतु निर्गत तिथि 21.07.2015 अंकित है। अतः वाद में पारित आदेश की तिथि से करीब चार माह बाद अंचल अधिकारी, किशनगंज को अनुपालन हेतु भेजा गया। सरकार के हित में ऐसे महत्वपूर्ण मामले में संबंधित पदाधिकारी को ससमय अनुपालन हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया जाना संदेह उत्पन्न करता है। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज का यह कृत सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

(iv) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के नियम 14 में अपील के लिए बी०एल०डी०आर० वाद में सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि में आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

इस प्रकार आदेश की प्रति ससमय संबंधित अंचलाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाना आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर करने की अधिकतम समय सीमा को कालबाधित करने के गलत नियत से की गई कार्रवाई परिलक्षित होती है।

(v) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता को बी०एल०डी०आर० वादों में आदेश पारित करने के तुरंत बाद इसे जिला के वेबसाइट पर ऑनलाईन करना चाहिए था। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया। बी०एल०डी०आर० वाद संख्या 150/2011—12 में दिनांक 16.06.2012 को पारित अथवा पुनरावलोकन में पारित आदेश को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।

(vi) परिवादी श्री अकबर अली के परिवाद के साथ संलग्न सी०डी० द्वारा पारित आदेश के पक्ष में साक्ष्य मिडिया कर्मियों को दिखाया एवं समझाया जा रहा था। प्रेस विज्ञप्ति का अधिकार केवल जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को है।

(vii) अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत उक्त आदेश में आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के जिस न्यायादेश का हवाला दिया गया है वह कोई न्यायादेश नहीं है बल्कि एक परिवाद के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित है, जिसके आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा विवादित भूमि की घेराबन्दी कराने के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी।

विभागीय पत्रांक 3083 दिनांक 15.03.2017 द्वारा मो० शफीक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो० शफीक के पत्रांक 304 दिनांक 31.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 6465 दिनांक 18.05.2018 एवं अन्य स्मार पत्रांक 15637 दिनांक 30.11.2018 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से मो० शफीक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी। जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को मो० शफीक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रतिलिपि ज्ञापक 2845 दिनांक 04.12.2018 द्वारा विभाग को सूचित किया गया।

विभागीय पत्रांक 6947 दिनांक 08.06.2017 एवं स्मार पत्रांक 15194 दिनांक 30.11.2017 द्वारा उक्त परिवाद पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज से आरोप-पत्र की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक 752/सी0 दिनांक 06.04.2018 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 शफीक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने स्तर से किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

मो0 शफीक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 27/आरोप-01-57/2019, सां0 प्र0-12092

संकल्प

3 सितम्बर 2019

श्री राजीव कुमार, बि० प्र० से० (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित आरोप (पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019) एवं अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) के आलोक में श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10841 दिनांक 06.08.2019 द्वारा संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(कर्म0)-08-01/2014-8362

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

27 सितम्बर 2019

श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा "भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988" के तहत दर्ज किये गये प्राथमिकी निगरानी वाद संख्या-02/2014 दिनांक 27.01.2014 तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरुपयोग एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-19(6) के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 861 दिनांक 14.02.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बित करते हुए निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1820 दिनांक 07.04.2014 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6320 दिनांक 08.12.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया गया तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त उनके निलंबन अवधि के संबंध में आदेश निर्गत किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक 7871 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.09.2018 के प्रभाव से उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी) के तहत सम्पूरित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1279 (अनु0)/अ0वि0जां0आ0 दिनांक 27.03.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध आरोपों के अप्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3472 दिनांक 03.05.2019 द्वारा श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) (4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के निलंबन अवधि (दिनांक 14.02.2014 से 07.12.2014 तक) के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है :-

“ निलंबन अवधि में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर पूर्ण वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाय तथा निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ”।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खॉं, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>